

November 11th, 2020

The Manager Department of Corporate Relationship, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street,

<u>Mumbai - 400 001</u> Scrip Code: 500370

SUB: <u>Newspaper advertisement Extra Ordinary General Meeting</u> through Video Conferencing / Other Audio Visual Means

("VC/OAVM")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of advertisement published, in compliance with general circular no 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)(hereinafter collectively referred to as circulars)Extra Ordinary General Meeting of the Company will be held on Friday, December 04, 2020 at 11.00 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") in the following newspapers on November 11, 2020:

- (i) Financial Express dated 11.11.2020 (English Daily)
- (ii) Jansatta dated 11.11.2020 (Hindi Daily)

The above notice is also uploaded on the Company's website i.e. www.salora.com

Kindly take the same on records and acknowledge receipt of the same.

Thanking You,

Yours faithfully, For Salora International Limited

(Mahak Agarwal)

Company Secretary & Compliance officer

Mem. No.: A-41350

Encl. as above

ट्रिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. पंजी. कार्या.: चौथा तल, टॉवर-1 एनबीसीसी प्लाजा, पुष्प विहार, सैक्टर-V, साकेत, नई दिल्ली—110017 फोन: +91-11-29561180, फैक्स: +91-11-29561171 ई-मेलः ho@tfciltd.com, वेबसाइटः www.tfciltd.com, सीआईएनः L65910DL1989PLC034812 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और छमाही के लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (र लाख मे) समाप्त तिमाही समाप्त छमाही

समाप्त वर्ष विवरण सं. 30.09.2020 30.06.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020 (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंके द्वित) (अंकेक्षित) प्रचालनों से कुल आय 6,477.57 6.308.40 8,033.34 12,785.97 14,297.15 26,275.17 अवधि के लिये निवल लाभ (कर, अपवादात्मक मदों और / या 2,146.87 2,502.50 5,460.92 9,745.30 2,714.09 4,860.96 असाधारण मदों से पूर्व) अवधि के लिये कर पूर्व निवल लाभ (अपवादात्मक मदों और/या 2.714.09 2,146.87 2,502.50 4,860.96 5,460.92 9,745.30 असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाभ (अपवादात्मक मदों और, 2,194.09 1,656.87 1.857.50 3,850.96 4,150.92 8,101.81 या असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिये कुल समग्र आय (जिसमें अवधि के लिये लाभ 2,427.97 1,656.87 2,118.61 4,084.84 4,397.15 8,239.26 (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल है) इक्विटी शेयर पूंजी ((अंकित मूल्य प्रत्येक ₹10 /-) 8,071.67 8.071.67 8,071.67 8,071.67 8,071.67 8,071.67 अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित) प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹10/-) (वार्षिकीकृत नहीं) – alसिक (₹) 2.72 2.05 2.30 4.77 5.14 10.04 –डाइल्युटिड (₹) 2.72 2.05 2.30 4.77 5.14 10.04

नोट:

- 1. वित्तीय परिणामों के उपर्युक्त विवरण का अनुमोदन दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को हुई बोर्ड बैठक में किया गया। सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने वित्तीय परिणामों पर अनर्हक राय व्यक्त की है।
- 2. अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार किया गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक (आईआरएसीपी) मार्गनिर्देशों के अधीन प्रावधान अपेक्षाओं से अधिक है। तदनुसार दिनांक 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना द्वारा गैर-बैंकिंग वितीय कम्पनी में भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन पर भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक मार्गनिर्देशों के अनुसार किसी क्षतिपूर्ति रिज़र्व का सृजन किया जाना अपेक्षित नहीं है।
 - कम्पनी मुख्य रूप से पर्यटन परियोजनाओं के वित्तपोशण का कारोबार कर रही है। चुंकि सभी क्रियाकलाप मुख्य क्रियाकलाप से सम्बन्धित हैं इसलिए "परिचालन खंड" पर भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार सूचित करने योग्य कोई अलग खण्ड नहीं है।
- उपर्युक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए तिमाही के लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का सार है। वार्षिक / तिमाही के लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.nseindia.com व www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.tfciltd.com पर उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते दूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

(अनिर्बान चक्रवर्ती) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ **BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED**

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the

Quarter Ended 30th September, 2020

Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 CIN: L65993DL1990PLC039397, Web: www.bervin.com, Email: secretary@bervin.com

(Amount, in Lacs) Quarter Ended Year Ended **Particulars** 30.09.2020 30.09.2019 31.03.2020 Unaudited Unaudited Audited 35.35 153.93 177.14 Total Income from Operations Net Profit/(Loss) for the period before tax 83.41 (before Exceptional and/or Extraordinary items) 18.11 151.79 Net Profit/(Loss) for the period before tax 83.41 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 18.11 151.79 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 151.79 66.62 18.11 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)) 151.79 66.62 18.11 589.81 589.81 589.81 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) 997.85 as shown in the Audited Balance Sheet of 997.85 1,282.25 the previous year) 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2020 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations) (1) Basic 0.31 1.41 (2) Diluted 0.31 2.57 1.41

No Leasing Business has been undertaken during the guarter.

- The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record and approved by Board of Directors at their meeting held on November 10,
- Figures for the quarter ended 30th June, 2020 and year ended 31st March 2020 have been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current quarter ended 30th September 2020.
- As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 30th September, 2020 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: 10th November 2020

S. K. Murgai (Director) DIN: 00040348

केन्स बैक Canara Bank

स्थान : नई दिल्ली

NIMBUS

दिनांक : 10 नवंबर, 2020

परिशिष्ट - IV- ए (नियम 8 (6) का परंतुक देखें) अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री सुचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है)' कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि तथा ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24—12—2020 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.canarabank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

| क्रम सं०. | उधारकर्ता/जमानती का नाम | देय राशि | सम्पत्ति का विवरण | आरक्षित मूल्य | ईएमडी | शाखा का नाम/पता |
|--------------|---|---|---|---|---|--|
| 1. | गली नं0. 8, बिसोखर रोड़, सैंतपुरा, मोदीनगर, गाजियाबाद 201204. | हजार चार सौ इक्कीस और ग्यारह पैसे मात्र) दिनांक 01.11.2020 तक बकाया + आगे का ब्याज एवं प्रभार इत्यादि देय है। | प्लॉट खसरा नं0. 75, कृष्णा कुंज, गांव औरंगाबाद गढाना, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद (यू०पी०) संयुक्त मालिक श्रीमति सुदेश कौर पत्नि श्री जगदीश पाल सिंह सिददू और श्री जगदीश पाल सिंह सिददू पुत्र स्व0. ढालीराम सिददू और चौहददी: पूर्व: श्री रविन्द्र का प्लॉट, पश्चिम: अन्य की प्रॉपर्टी, उत्तर: अन्य की प्रॉपर्टी, दक्षिण: 25 फिट चौड़ा रोड़। | रूपये 27,00,000 (सत्ताईस लाख मात्र) | रूपये 2,70,000 (दो लाख सत्तर हजार मात्र) | शाखा मोदीनगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद, यू0पी0, फोन.– 9412774666 |
| 2. | | हजार पांच सौ बानवे और पच्चीस पैसे मान) टिनांक 01 11 2020 तक बकारा ± | भूमि और ईमारत कॉमर्शियल दुकान जिसकी माप 35.68 स्क्वेयर मीटर, खसरा नं0. 249 एम, दिल्ली मेरठ रोड़, सरकारी अस्पताल के पास, गांव उखलर्सी, मुरादनगर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद और चौहददी: पूर्व: श्री भोपाल सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम: दिल्ली मेरठ रोड़, उत्तर: श्री भोपाल सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण: 25 फिट चौड़ा रास्ता। | रूपये 24,00,000 (चौबीस लाख मात्र) | रूपये 2,40,000 (दो लाख चालिस हजार मात्र) | शाखा मोदीनगर, मेरठ रोड़, गाजियाबाद, यू0पी0, फोन.— 9412774666 |
| वि | नांक 10.11.2020 | | क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद। | | पाधिकत आ | विकारी केनरा बैंक। |

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 1001–1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001

फोन : 011-42878900, ईमेल : nimbusindialtd@gmail.com, वेबसाईट : www.nimbusprojectsltd.com CIN : L74899DL1993PLC055470 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही व छमाही स्टैंडअेंलोन एवं कन्सोलिडेटेड अन—अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार (र लाख में)

| 192 | | V46 975 | स्टैंडअँलो | न | 175 | कन्सोलिडेटेड | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
| विवरण | समाप्त तिमाही 30.09.2020 (अन—अंकेक्षित) | समाप्त तिमाही 30.06.2020 (अन—अंकेक्षित) | समाप्त तिमाही 30.09.2019 (अन-अंकेक्षित) | समाप्त छमाही 30.09.2020 (अन—अंकेक्षित) | समाप्त छमाही 30.09.2019 (अन—अंकेक्षित) | समाप्त वर्ष 31.03.2020 (अंकेक्षित) | समाप्त तिमाही 30.09.2020 (अन—अंकेक्षित) | समाप्त तिमाही 30.06.2020 (अन-अंकेक्षित) | समाप्त तिमाही 30.09.2019 (अन—अंकेक्षित) | समाप्त छमाही 30.09.2020 (अन—अंकेक्षित) | समाप्त छमाही 30.09.2019 (अन–अंकेंब्रित) | समाप्त वर्ष 31.03.2020 (अंकेक्षित) |
| परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) | 329.98 | 80.60 | 565.66 | 410,58 | 764.50 | 950.75 | 329.97 | 80.60 | 565.66 | 410.58 | 764.50 | 950.75 |
| अवधि का शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर पूर्व तथा असाधारण मदों के उपरान्त) | (-) 398.37 | (-) 844.09 | (-) 108.72 | (-) 1242.46 | (-) 936.75 | 1683.41 | (-)387.38 | (881.06) | (-) 272.11 | (-) 1268.44 | (-) 1144.88 | 2308.22 |
| अवधि का कर के बाद शुद्ध लाम/ (हानि) (असाधारण मदों के उपरान्त) | (-)406.83 | (-) 847.57 | (-) 201.41 | (-) 1254.40 | (-) 1030.65 | 1594.15 | (-) 395.84 | (884.54) | (-) 364.80 | (-) 1280.38 | (-) 1238.78 | 2218.97 |
| अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) | (-)406.48 | (-) 848.19 | (-) 201.64 | (-) 1254.67 | (-) 1031.72 | 1590.00 | (-) 395.12 | (884.97) | (-) 365.03 | (-) 1280.09 | (-) 1239.85 | 2214.82 |
| समता अंश पूंजी | 743.80 | 743.80 | 743.80 | 743.80 | 743.80 | 743.80 | 743.80 | 743.80 | 743.80 | 743.80 | 743.80 | 743.80 |
| कोष (पूर्नमूल्याकंन कोष हटाकर, पूर्व लेखा वर्ष के बैंलेंसशीट के अनुसार) | - | - | (- 8) | - | - | (-) 3563.60 (As on 31.03.2020) | - | 8= | - | - | - | (-) 4067.82 (As on 31.03.2020) |
| आय प्रति अंश (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक) मूलभूत : डाइल्यूटिड : | (-) 5.47 (-) 5.47 | (-) 11.40 (-) 11.40 | (-) 2.71 (-) 2.71 | (-) 16.86 (-) 16.86 | (-) 13.86 (-) 13.86 | 21.43 21.43 | (-) 5.32 (-) 5.32 | (11.89) (11.89) | (-)4.90 (-)4.90 | (-) 17.21 (-) 17.21 | (-) 16.65 (-) 16.65 | 29.83 29.83 |

टिप्पणीः उपरोक्त, सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही व छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। समाप्त तिमाही व छमाही के वित्तीय बोर्ड की ओर से

परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटः www.bseindia.com तथा कंपनी के वेबसाइट : www.nimbusprojectsltd.com पर उपलब्ध है।

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर बिपिन अग्रवाल (प्रबन्ध निदेशक)

बीआईएनः 00001276

तिथि : 10 नवम्बर, 2020 स्थान : नई दिल्ली

कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- बीजी-223, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर, जीटी करनाल रोड, दिल्ली-110042, Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com, website:www.kalyanicommercialsltd.com

Contact No. +91-11-43062203; CIN: L65923DL1985PLC021453

30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्धवार्षिक के उद्वरित एकीकृत एवं समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम (रू० लाखों में, प्रति शेयर डाटा को छोड़कर)

| SI. No. | Particulars | | | एकीकृत परिणाम | | | | | समेकित परिणाम | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | समाप्त तिमाही 30/09/2020 | समाप्त तिमाही 30/06/2020 | समाप्त तिमाही 30/09/2019 | समाप्त अर्धवार्षिक 30/09/2020 | समाप्त अर्धवार्षिक 30/09/2019 | समाप्त वार्षिक 31/03/2020 | समाप्त तिमाही 30/09/2020 | समाप्त तिमाही 30/06/2020 | समाप्त तिमाही 30/09/2019 | समाप्त अर्धवार्षिक 30/09/2020 | समाप्त अर्धवार्षिक 30/09/2019 | समाप्त वार्षिक 31/03/2020 | |
| 5-5 | | (अनअंकेक्षित) | (अनअंकेक्षित) | (अनअंकेक्षित) | (अनअंकेक्षित) | (अनअंकेक्षित) | (अंकेक्षित) | (अनअंकेक्षित) | (अनअंकेक्षित) | (अनअंकेक्षित) | (अनअंकेक्षित) | (अनअंकेक्षित) | (अंकेक्षित) | |
| 1 | परिचालन से कुल आय | 1,293.55 | 428.98 | 5664.08 | 1722.53 | 11284.65 | 2277.46 | 4744.54 | 1521.02 | 14,526.07 | 6265.56 | 30050.80 | 64068.29 | |
| 2 | अवधि के निए नेट लाभ/(हानि) (करें, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले) | 54.40 | (46.64) | 10.21 | 7.80 | 19.94 | 112.75 | 123.73 | 44.84 | (11.28) | 168.57 | 36.42 | 113.57 | |
| 3 | अवधि के निए नेट लाभ/(हानि) कर से पहले (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के पश्चात्) | 54.40 | (46.64) | 10.21 | 7.80 | 19.94 | 112.75 | 123.73 | 44.84 | (11.28) | 168.57 | 36.42 | 113.57 | |
| 4 | अवधि के निए नेट लाभ/(हानि) कर के बाद (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्) | 52.31 | (46.64) | 8.09 | 5.67 | 14.74 | 88.40 | 102.60 | 44.84 | (11.44) | 147.44 | 26.12 | 68.52 | |
| 5 | अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (व्यापक लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक एवं अन्य व्यापक आय मिलाकर (कर पश्चात्)) (संदर्भ नोट न० 2) | 52.31 | (46.64) | 8.09 | 5.67 | 14.74 | 95.45 | 102.60 | 44.84 | (11.44) | 147.44 | 26.12 | 75.57 | |
| 6 | प्रदत इक्विटी शेयर कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 7 | अन्य इक्वीटी | 778.82 | 778.82 | 666.85 | 784.48 | 681.58 | 778.82 | 791.83 | 791.83 | 689.61 | 791.83 | 710.92 | 791.83 | |
| 8 | प्रति शेयर आय (रू० 10/- प्रत्येक) परिचालन जारी तथा बंद करने | ा के लिए) : | | | ý. | | × | | | | 0 | | | |
| | Basic: | 5.23 | (4.66) | 0.81 | 0.57 | 1.47 | 9.55 | 10.26 | 4.48 | -1.14 | 14.74 | 2.06 | 7.56 | |
| . 3 | Diluted: | 5.23 | (4.66) | 0.81 | 0.57 | 1.47 | 9.55 | 10.26 | 4.48 | -1.14 | 14.74 | 2.06 | 7.56 | |

टिप्पणी:

- 1. सेबी (सूची दायित्वों एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015 के विनियमन 33, के अर्न्तगत उपरोक्त तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एक्सचेन्ज में दाखिल किया गया। उपरोक्त तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट viz, www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट viz, www.kalyanicommercialsltd.comपर उपलब्ध है।
- 2.. कम्पनी ने 1 अप्रैल. 2019 से इंडियन स्टैन्डर्ड ("आईएनडी एएस") ग्रहण किया है तथा कम्पनीज अधिनियम. 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित साथ में उसके अंतर्गत जारी पठित प्रसांगिक नियमन अनसार ये वित्तीय परिणाम आईएनडी एएस 34 "अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग" एवं सामान्तया इंग्डिया में स्वीकार किये जाने वाले मान्यता माप सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किये गये।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते कल्याणी कमर्शियल्स लिमिटेड हस्ता०/-सौरभ अग्रवाल

(पूर्णकालिक निदेशक

DIN: 02168346

विकेजे इन्फ्रडिवेलपरस लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय : बी-32,यू/जी/एफ/बी/एस/ ऑफिस नं. 1, 1 तल, सुमाष चौक, निवर हीरा स्वीट्स, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092

CIN: L45400DL2010PLC200014 30.09.2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वितीय परिणाम (राशि लाख में)

30.06.2020

को समध्त

30:09:2020

को समान

30.09.2019

को समाप्त को समाप्त

31.03.2020

| | | अलेखापरीचित | | के इस तिथि तक आंकड़े अलेखापरीक्षित | इस तिथि तक आंकडें अलेखापरीवित | पिछला वष |
|---|--|----------------|---------|--|-------------------------------------|----------------|
| 1 | कुल आय | 5.47 | 5.47 | 10.95 | 7.31 | 22.41 |
| 2 | अवधि के लिए निवल लाम/ (हानि) (कर अपवादात्मक और /या अतिविशिष्ट गर्दो से पूर्व#) | 0.28 | 0.43 | 0.71 | 0.87 | 2.44 |
| 3 | कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाम/(शानि) (अपवादात्मक और /या अतिविशिष्ट मदों के बादमें) | 0.28 | 0.43 | 0.71 | 0.87 | 2.44 |
| 4 | कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाम/(शानि) (अपवादात्मक और /या अतिविशिष्ट मदों के बाद#) | 0.28 | 0.43 | 0.71 | 0.87 | 1.78 |
| 5 | अवधि के लिए कुल व्यापक आय (ज्ञविष के लिए लाम/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल) | 0.28 | 0.43 | 0.71 | 0.87 | 1.78 |
| 6 | इविचटी शेयर पूंजी | 2379.97 | 2379.97 | 2379.97 | 2379.97 | 2379.97 |
| 7 | आरक्षित (पिछले वर्ष 31.03.2020 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शावे गये अनुसार पुनर्मृत्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित) | | d: | 230.89 | | |
| 8 | प्रति शेयर अर्जन (इ. 1 / – प्रत्येक) (बालू एवं बंद प्रचालनों के लिए) 1. मूल: 2. वनकत: | 0.001 0.001 | | | 0.001 0.001 | 0.002 0.002 |

उपरोक्त सेवी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवष्यकताएं) विनिवम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सवेजों में दाखिल तिमाही/छमाही वित्तीय परिणामों के विरत्तत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/छमाही वेलीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट

http://wkjinfra.com पर उपलब्ध है। लेखाकरण नीतियाँ में परिवर्तन के कारण निवल लाभ/हानि, कुल व्यापक आय वा किसी अन्य संगत वितीय मदों में प्रमाव को फुटनोट के माध्यम से प्रकटित किया जाएगा। # - लाम एवं होनि विवरण में समायोजित अपवादात्मक और/या अतिविशिष्ट मद इंड-एएस नियमों / एएस नियम, जहां लागू हो, के अनुरूप है।

बोर्ड के आज्ञानुसार कृते विकेजे इन्क्रडिवेलपरस लिमिटेड हस्ता/-

বিনাক: 10.11.2020

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजी. कार्या.: डी-13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 CIN:L74899DL1968PLC004962 वेबसाइट : www.salora.com, ई-मेल : silcare@salora.com, दूरभाष : 011-40552341

असाधारण वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की तिथि की सूचना एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की असाधारण आम सभा (ईजीएम) शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020 14/2020 , 17/2020 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्क्युलर नं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 (यहाँ के बाद सामृहिक रूप से सर्क्युलर्स वर्णित) के अनुपालन में किसी सामूहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना कम्पनी को वीसी के द्वार ईजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। अतएव कम्पनी की ईजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है जिसमें ईजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

सर्क्युलर्स के अनुपालन में ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईद www.salora.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। ईमेल द्वारा ईजीएम सूचना का प्रेषण 10.11.2020 को पूरा कर लिया गया है। कट-ऑफ तिथि 27.11.2020 को भौतिक या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य

एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम सुचना में वर्णित व्यवसायों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित कर सकते हैं। सदस्यों को सचित किया जाता है किः र्डजीएम की सचना में वर्णित व्यवसायों को रिमोट ई-वोटिंग अथवा ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से

- निष्पादित किया जायेगा।
- ii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 01.12.2020 को 9.00 बजे पर्वा. में शरू होगी।
- iii. रिमोट ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, 03.12.2020 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। iv. रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ
- v. 03.12.2020 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दी जायेगी।
- vi. यदि कोई व्यक्ति ईजीएम की सचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा 27.11.2020 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि वे ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- vii. सदस्यगण ध्यान रखें किः क) 03.12.2020 को 5.00 बजे अप. भा.मा.स. के बाद एनएसडीएल द्वार रिमोट ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनमति नहीं दी जायेगी: ख) ईजीएम के दौरान भी मतदान की सविधा उपलब्ध होगी तथा वीसी सविधा द्वारा एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर मतदान नहीं किये हों, वे ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली से मतदान कर सकते हैं। ग्रे जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। किन्तु फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे; तथा घ) केवल ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।
- viii. डिमैंटेरियलाइज्ड पद्धत्ति. भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों तथा ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, के लिये रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया ईजीएम की सूचना में र्द गई है। ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों से आग्रह है कि www.salora.com देखकर विवरण प्राप्त करें।
- ix. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हों, उनसे आग्रह है कि संबंधित डिपॉजिटर्र पार्टिसिपैन्टस के पास ई-मेल पता दर्ज कराएं तथा भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि ईजीएम की सुचना, रिमोट ई-वोटिंग के लिये निर्देशों तथा वीसी के द्वारा ईजीएम मे भागीदारी के लिये निर्देशों के लिये admin@skylinerta.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेय अंतरण एजेन्ट मैं. स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्रा.लि. (स्काईलाइन) के पास अपना ईमेल पत अपडेट कराएं।
- यदि आपको ईजीएम में शामिल होने एवं ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न अथव समस्या हो तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAO's) तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नम्बरः 1800-222-990 पर कॉल करें अथव evoting@cdsl.co.in पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से उनके विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नं. 91 22 24994545/1800-222-990 पर सम्पर्क करें।

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से

तिथि: 10.11.2020 स्थानः नई दिल्ली

सलोरा इन्टरनेशनल लिमिटेड

महक अगरवाल कम्पनी सचिव

BUCKINGHAM INDUSTRIES LIMITED CIN: L27310DL1983PLC314401 R-489, GF-D, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060 Tel: 011-42475489. Email: buckingham1983@gmail.com, Website: www.buckingham.in UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER & HALF YEAR ENDED 30.09.2020

| | | | Quarter ende | d | Half Year ended | | Year ende |
|------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| | Particulars | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 31.03.2020 |
| | | Un-audited | Un-audited | Un-audited | Un-audited | Un-audited | Audited |
| | Revenue from Operations | | | | | | |
| | Receipts from Consultancy | | | | | | |
| | Business | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 600.00 |
| | Sale of Shares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.16 |
| II | Other Income/ Receipts | 277.56 | 230.09 | 236.67 | 507.65 | 459.86 | 924.85 |
| Ш | Total Revenue (I+II) | 1037.56 | 230.09 | 236.67 | 1267.65 | 459.86 | 1880.01 |
| IV | Expenses: | | | | | | |
| - 1 | Change in Inventories - Stock | | | | | | |
| | in Trade | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.63 |
| - 1 | Employee benefits expense | 143.00 | 158.50 | 234.00 | 301.50 | 488.55 | 842.55 |
| - 1 | Finance cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 |
| - 1 | Depreciation and Amortization | | | | | | |
| | expense | 0.95 | 0.95 | 1.57 | 1.90 | 3.14 | 5.01 |
| | Other Expenses | 122.65 | 47.62 | 91.90 | 170.27 | 165.15 | 510.65 |
| | Total Expenses | 266.60 | 207.07 | 327.47 | 473.67 | 656.84 | 1740.74 |
| νl | Profit before exceptional and | | | | | | |
| - 1 | extraordinary items and tax (III-IV | 770.96 | 23.02 | -90.80 | 793.98 | -196.98 | 139.27 |
| VI | Exceptional items | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII | Profit before extraordinary | | | | | | |
| | items and tax (V-VI) | 770.96 | 23.02 | -90.80 | 793.98 | -196.98 | 139.27 |
| VIII | Extraordinary Items | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ix | PROFIT BEFORE TAX (VII-VIII | | 23.02 | -90.80 | 793.98 | -196.98 | 139.27 |
| χl | Tax Expense | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.47 |
| χı | Profit (Loss) for the period from | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.47 |
| ^' | continuing operations (IX-X) | 770.96 | 23.02 | -90.80 | 793.98 | -196.98 | 115.80 |
| XII | Profit /(Loss) from discontinuing | | 23.02 | -90.00 | 1 33.30 | -130.30 | 113.00 |
| ^" | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII | operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XIII | Tax Expense of discontinuing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIV. | operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XIV | Profit /(Loss) from discontinuing | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | operations (after tax) (XII-XIII) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| XV | Profit /(Loss) for the period (XI+XI | | 23.02 | -90.80 | 793.98 | -196.98 | 115.80 |
| | Other Comprehensive Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total Comprehensive Income | 770.96 | 23.02 | -90.80 | 793.98 | -196.98 | 115.80 |
| XVII | I Earning per Share | | | | | | |
| | (for continuing & discontinuin | g | | | | | |
| - 1 | operations) | | | | | | |
| | (Equity share of par value of | | | | | | |
| | Rs. 10 each) | | | | | | |
| | Basic | 3.15 | 0.09 | -0.37 | 3.24 | -0.80 | 0.47 |
| | Diluted | 3.15 | 0.09 | -0.37 | 3.24 | -0.80 | 0.47 |
| | | STATEMENT | OF ASSETS | & LIABILITIE | S | (Rs. i | n thousand: |
| | 30 | 0.09.2020 31.03 | 3.2020 | | | · . | 31.03.2020 |
| | Particiliars | | ITED | Particu | lars | UN-AUDITED | |
| As | sets | | Fau | itv and liabili | ties | | |

Equity and liabilities Non-Current Assets Property, plant and equipment 30.62 32.50 2450.00 2450.00 Equity Share capital Financial Assets Other Equity 17112.21 16277.48 10939.56 9450.00 Other financial assets 500.00 500.00 19562.21 18727.48 Total equity 11470.18 9982.50 Total non-current assets **Current liabilities** Financial Liabilities Inventories Trade payables 0.00 Financial Assets 0.00 40.75 Current Investments 103.66 177.88 139.19 Cash and cash equivalents 834.98 7 14 Other current liabilities Short-term loans and advances 7645.00 7645.00 179.94 Total current liabilities Other current assets 172.66 341 28 179.94 **Total liabilities** 7.14 Total current assets 8099.19 8924.92 19569.36 18907.42 Total equity and liabilities 19569.36 18907.42 Total Assets

No investor's complaint was received & No Complaint pending at the beginning or end of Quarter / Half Year. Results were taken on record by Audit Committee & Board of Directors in meetings held on 10.11.2020 Shares stand Listed at MSEI & CSE. GSTIN: 07AAACB2509C1ZD

- Previous Year's / Quarterly figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.
- Paid-up Capital = 2,45,000 equity shares of Rs. 10/- = Rs. 24,50,000/-

Place: New Delhi = Date: 10.11.2020

For Buckingham Industries Limited For Anuj Garg & Co. Chartered Accountants Anuj Garg = Proprietor = M. No. 082422 PANKAJ AGGARWAL = Director = DIN: 01586710

तिथि: 11.11.2020

स्थानः दिल्ली

www.readwhere.com

(₹ in Lakhs)

FINANCIAL EXPRESS

BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED

Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 CIN: L65993DL1990PLC039397, Web: www.bervin.com, Email: secretary@bervin.com Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30th September, 2020 (Amount, in Lacs)

| | District to the Confession S | Quarte | r Ended | Year Ended |
|------------|---|------------|------------|---|
| SI. No. | Particulars | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 31.03.2020 |
| | | Unaudited | Unaudited | Audited |
| 1. | Total Income from Operations | 35.35 | 153.93 | 177.14 |
| 2. | Net Profit/(Loss) for the period before tax | | | |
| | (before Exceptional and/or Extraordinary items) | 18.11 | 151.79 | 83.41 |
| 3. | Net Profit/(Loss) for the period before tax | 3679705 | 201150020 | 01578300555 |
| 12 | (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 18.11 | 151.79 | 83.41 |
| 4. | Net Profit/(Loss) for the period after tax | 000000000 | 0000000000 | 100000000000000000000000000000000000000 |
| | (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 18.11 | 151.79 | 66.62 |
| 5, | Total Comprehensive Income for the period | | | |
| 7// | (Comprising Profit/(Loss) for the period | | | |
| | (after tax) and other Comprehensive Income | 802503 | 000000 | 1923925 |
| | (after tax)) | 18.11 | 151.79 | 66.62 |
| 6. | Equity Share Capital | 589.81 | 589.81 | 589.81 |
| 7. | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | 3230000 | 3604523300 | 12002045-046 |
| | as shown in the Audited Balance Sheet of | 997.85 | 1,282.25 | 997.85 |
| | the previous year) | 31.03.2020 | 31.03.2019 | 31.03.2020 |
| 8. | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) | | | |
| | (For continuing and discontinued operations) | 0.24 | 0.57 | 4.44 |
| | (1) Basic | 0.31 | 2.57 | 1.41 |
| | (2) Diluted | 0.31 | 2.57 | 1.41 |

1) No Leasing Business has been undertaken during the quarter.

Place: New Delhi

Date: 10th November 2020

2) The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on

record and approved by Board of Directors at their meeting held on November 10, Figures for the quarter ended 30th June, 2020 and year ended 31st March 2020 have

been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the

current guarter ended 30th September 2020. As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies

Act, 2013 are not applicable. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the quarter ended 30th September, 2020 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com)

> For and on behalf of the Board of Directors S. K. Murgai (Director)

DIN: 00040348

SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED Regd. Office: D-13/4. Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020

CIN - L74899DL1968PLC004962, Website: www.salora.com, Email: silcare@salora.com, Telephone: 011-40552341 NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING AND

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Company will be held on Friday, the 04th Day of December, 2020 at 11.00 A.M through Video Conferencing/other Audio visual means in compliance with general circular no 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)(hereinafter collectively referred to as circulars) companies are allowed to hold EGM's through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence the EGM of the Company is being held through VC to transact the business as set out in the EGM Notice. In compliance with the circulars, electronic copies of the notice of the EGM have been

BOOK CLOSURE DATE

sent to all the members whose email-IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). This document is also available on the website of the Company, at www.salora.com, Stock exchange website and on the NSDL website. The Dispatch of Notice of EGM through emails has been completed on 10.11,2020 Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-

off date 27.11.2020 will cast their votes electronically on the business as set forth in the notice of the EGM through the electronic voting system of NSDL (remote e-voting). Members are hereby informed that: The business as set forth in the notice of the EGM may be transacted through

remote e-voting or e-voting system at the EGM. The remote e-voting shall commence on Tuesday 01.12,2020 at 9:00 A.M.

The remote e-voting shall end on Thursday 03.12.2020 at 5:00 P.M. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-

voting system at the EGM shall be 27.11.2020 Remote e-voting module will be disabled after 5:00 P.M on 03.12.2020

Any person who acquires shares of the company and becomes a member postdispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e.27.11.2020 may obtain the login ID and password by sending a request at

evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for evoting then the existing user ID and password can be used for casting their vote. Members may note that a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 PM IST on 03.12.2020 and once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting will also be made available during EGM and those members present in the EGM through VC facility who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so , shall be eligible to vote through the e-voting system at the EGM. C) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their votes again. And d) Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut -off date shall be

entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the EGM. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the notice of the EGM. The details are also be made available on the website of the company. Members are requested to visit www.salora.com to obtain details.

Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with company's Registrar and share transfer Agent M/s. Skyline Financial Services Pvt. Ltd. (SKYLINE) at admin@skylinerta.com to receive copies of the notice of the EGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the EGM through VC.

If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and evoting manual available at www.evoting.nsdl.com, or call on toll free number: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at thedesignated email IDs evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos. 91 22 2499 4545/1800-222-990

For and on behalf of board

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

CIN: L24219DL2006PLC145092

Regd & Corporate office: Plot No. 50, Phase-2, Badli, Industrial Area, Delhi -110042. Tel: +91-11-42083083. Website: https://sircapaints.com. Email: info@sircapaints.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF THE COMPANY FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020 (Figures in Lacs)

| | | | 5 | STANDALON | E | |
|-----|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| SI. | 4500x00x4x40000 Magrinon | Quarte | r Ended | Six Mont | ths Ended | Year Ended |
| No. | Particulars | 30.9.2020 Un-audited | 30.09.2019 Un-audited | 30.09.2020 Un-audited | 30.09.2019 Un-audited | 31.03.2020 Audited |
| 1 | Total Revenue from Operations | 3,877.91 | 4,005.00 | 5100.65 | 7,364.06 | 14,066.59 |
| 2 | Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items) | -564.57 | 1,321.28 | -657.25 | 2,219.65 | 3,418.50 |
| 3 | Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items) | -564.57 | 1,321.28 | -657.25 | 2,219.65 | 3,418.50 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items) | -429.30 | 976.05 | -499.08 | 1620.57 | 2,515.76 |
| 5 | Total Comprehensive income for the period | -429.30 | 975.95 | -499.08 | 1620.37 | 2,517.46 |
| 6 | Equity Share Capital | 2,740.44 | 2,740.44 | 2,740.44 | 2,740.44 | 2,740.44 |
| 7 | Other Equity | 15,226.02 | 15,324.24 | 15,226.02 | 15,324.24 | 15,725.10 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 1. Basic : (not annualised) 2. Diluted: (not annualised) | (1.57) (1.57) | 3.56 3.56 | (1.82) (1.82) | 5.91 5.91 | 9.18 9.18 |
| | | | | (Figu | ires in Lacs | except EPS) |
| | | | C | ONSOLIDATE | D | 233 |
| SI. | | Quarte | r Ended | Six Mont | ths Ended | Year Ended |
| No. | Particulars | 30.9.2020 Un-audited | 30.09.2019 Un-audited | 30.09.2020 Un-audited | 30.09.2019 Un-audited | 31.03.2020 Audited |
| 1 | Total Revenue from Operations | 3,877.91 | 4,005.00 | 5,100.65 | 7,364.06 | 14,066.59 |

Profit / (Loss) for the period (before tax, -567.00 1,321.28 -659.69 2,219.65 3,418.50 Exceptional and / or Extraordinary items) Profit / (Loss) for the period before tax -567.001,321.28 -659.69 2,219.65 3,418.50 (after Exceptional and / or Extraordinary Items) Net Profit / (Loss) for the period after tax -431.11976.05 -500.891620.57 2,515.76 (after Exceptional and/or Extraordinary Items) Total Comprehensive income for the period 975.95 -500.891620.37 2,517.46 -431.11Equity Share Capital 2,740.44 2,740.44 2,740.44 2,740.44 2,740.44 Other Equity 15,224.20 15,324.24 15,224.20 15,324.24 15,725.10 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 9.18 1. Basic : (not annualised) 5.91 (1.57)3.56 (1.83)2. Diluted: (not annualised) (1.57)3.56 (1.83)5.91 9.18

Place: Delhi

Date: 10.11.2020

1. The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEB1 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Standalone Financial Results are available on the Company's website (www.sircapaints.com) and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nselndia.com). For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

Sanjay Agarwal

(DIN: 01302479) (Chairman cum Managing Director)

SAL AUTOMOTIVE LIMITED (formerly Swaraj Automotives Limited)

> CIN: L45202PB1974PLC003516 Regd. Office: C-127, IV Floor, Satguru Infotech, Phase VIII, Industrial Area, S.A.S.Nagar (Mohali), Punjab - 160062

Tel.: 0172-4650377, Fax: 0172-4650377,

Email: kaushik.gagan@salautomotive.in, Website: www.salautomotive.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30[™] SEP, 2020

| SI. | | Qı | uarter End | ed | Half Yea | Year Ended | |
|-----|---|--------------|------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| No. | Particulars | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 31.03.2020 |
| | | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| 1. | Total Income | 2523 | 918 | 2397 | 3341 | 4781 | 8670 |
| 2 | EBDITA | 124 | (119) | 38 | 5 | 104 | 60 |
| 3. | Net Profit /(Loss) before tax and exceptional items | 73 | (166) | (8) | (93) | 12 | (123) |
| 4. | Net Profit /(Loss) before tax and after exceptional items | 73 | (166) | (8) | (93) | 302 | 183 |
| 5. | Tax Expense | 17 | (41) | (1) | (24) | 72 | 58 |
| 6. | Net Profit /(Loss) after tax and exceptional items | 56 | (125) | (7) | (69) | 230 | 125 |
| 7. | Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (loss) after tax and other comprehensive income after tax) | 56 | (125) | (7) | (69) | 230 | 129 |
| 8. | Paid-up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/-) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 9. | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 |
| 10. | Earning per share on net profit after tax (Not Annualised) - Basic - Diluted | 2.33 2.33 | (5.20) (5.20) | (0.28) | (2.87) | 9.59 9.59 | 5.40 5.40 |

- meeting held at Ghaziabad on 9" November, 2020. The Statutory Auditors have conducted a limited review of above financial 2. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the
- Ind AS 34 "Interim Financial Reporting" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles relevant thereto.

1. The above financial results were reviewed by the audit committee and thereafter approved by the Board of Directors in their

- 3. As per Ind AS 108 dealing with "Operating Segment", Company has reported following two segments as its operating a) Automobile Components, which includes Tractor seats, LCV seats, Seat mechanisms for passenger cars & commercial
- b) Agriculture Implements, which includes Rotavators, Tractor trailers and Planter.

vehicles and Seat frames for commercial vehicles;

company from mid March' 2020 onward, which was then extended on multiple occasions and the reopening of the economy has begun in May 2020 in phased manner. This has adversely impacted business segments partially in Q1'FY21 and also in Q2'FY21. The company is closely monitoring any material changes on economic conditions impacting its business and is taking best possible steps to comeback on the normal working levels.

Spread of COVID -19 has affected the economic activity across the Globe including India, it has affected the business of the

5. Pursuant to Rule 29 of Companies (Incorporation) Rules 2014, under Section 13 of The Companies Act, 2013, company name has been changed from Swaraj Automotives Limited to SAL Automotive Limited on 4th June, 2019. for and on behalf of

www.salautomotive.in

the Board of Directors

Rama Kant Sharma

(Managing Director)

KALYANI COMMERCIALS LIMITED

Place: Ghaziabad

Date : 09.11.2020

Regd. Office:- BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, Delhi-110042, Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com, website:www.kalyanicommercialsltd.com Contact No. +91-11-43062203; CIN: L65923DL1985PLC021453

Extract of Standalone and Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter and Half- Year ended 30th September, 2020

(Rs. In Lakhs, Except EPS)

| SI. No. | Particulars | | | Stand | dalone Results | | | Consolidated Results | | | | | |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | Quarter Ended 30/09/2020 | Quarter Ended 30/06/2020 | Quarter Ended 30/09/2019 | Half Year Ended 30/09/2020 | Half Year Ended 30/09/2019 | Year Ended 31/03/2020 | Quarter Ended 30/09/2020 | Quarter Ended 30/06/2020 | Quarter Ended 30/09/2019 | Half Year Ended 30/09/2020 | Half Year Ended 30/09/2019 | Year Ended 31/03/2020 |
| | | (Unaudited | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| 1 | Total Income from operations | 1,293.55 | 428.98 | 5664.08 | 1722.53 | 11284.65 | 2277.46 | 4744.54 | 1521.02 | 14,526.07 | 6265.56 | 30050.80 | 64068.29 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 54.40 | (46.64) | 10.21 | 7.80 | 19.94 | 112.75 | 123.73 | 44.84 | (11.28) | 168.57 | 36.42 | 113.57 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Excepti onal and/or Extraordinary items) | 54.40 | (46.64) | 10.21 | 7.80 | 19.94 | 112.75 | 123.73 | 44.84 | (11.28) | 168.57 | 36.42 | 113.57 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 52.31 | (46.64) | 8.09 | 5.67 | 14.74 | 88.40 | 102.60 | 44.84 | (11.44) | 147.44 | 26.12 | 68.52 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2) | 52.31 | (46.64) | 8.09 | 5.67 | 14.74 | 95.45 | 102.60 | 44.84 | (11.44) | 147.44 | 26.12 | 75.57 |
| 6 | Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | Other Equity | 778.82 | 778.82 | 666.85 | 784.48 | 681.58 | 778.82 | 791.83 | 791.83 | 689.61 | 791.83 | 710.92 | 791.83 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and di | scontinued oper | ations): | | | | 9. | | | | | 20 | |
| 2 | Basic: | 5.23 | (4.66) | 0.81 | 0.57 | 1.47 | 9.55 | 10.26 | 4.48 | -1.14 | 14.74 | 2.06 | 7.56 |
| | Diluted: | 5.23 | (4.66) | 0.81 | 0.57 | 1.47 | 9.55 | 10.26 | 4.48 | -1.14 | 14.74 | 2.06 | 7.56 |

Notes:

Place: Delhi

Date: 11.11.2020

- The above is an extract of the detailed format of guarterly standalone and consolidated financial results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020, filed with stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) 2015. Detailed guarterly financial results are available on Company's website (www.kalyanicommercialsltd.com) as well as on stock exchange website (www.nseindia.com).
- 2. The Company has adopted Indian Accounting Standard (""Ind AS"") from 1st April, 2019 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 ""Interim Financial Reporting"", prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

On Behalf of the Board For Kalyani Commercials Limited

Sourabh Agarwal (Wholetime Director) DIN: 02168346

Salora International Limited Mahak Agarwal Company Secretary



E-AUCTION SALE NOTICE



Date: 10.11.2020

Place: New Delhi

COSMO FERRITES LIMITED

AUDITED FINANCIAL RESULTS

Rs. in lacs

| | | | 110. 111 1000 |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| Particulars | Quarter Ended | Half Year Ended | Quarter Ended |
| VD-201-0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
| Total Income from Operations | 1,868 | 2,611 | 1,521 |
| Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 36 | (85) | (191) |
| Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 38 | (83) | (191) |
| Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax (after Extraordinary and/or Extraordinary items) | 39 | (86) | (190) |
| Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 39 | (95) | (187) |
| Equity Share Capital | 1,203 | 1,203 | 1,203 |
| Other Equity | ĵ. | | |
| Earning Per Share (of Rs 10 each) - Basic: - Diluted: | 0.31 0.31 | (0.72) (0.72) | (1.59) (1.59) |

Diluted: Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com)
- The above statement of audited financial result was taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 10th November 2020. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
- These standalone financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereunder. The operations of the company were impacted by Covid -19 Pandemic during Q1 FY 2020-21
- due to lockdown enforced by the Government of India. Subsequently during Q2 FY 2020-21, operations of the Company have returned to near normalcy. The management has exercised due care in concluding on significant accounting judgements and estimates, inter-alia, recoverability of receivables, impairment assessment of financial and non-financial assets, realisability of Inventory and overall liquidity. The management believes that with financial support measures being extended by the Company's bank, the Company will be able to discharge the future liabilities as and when falling due. The Company will continue to monitor current and future conditions and impact thereof on Company's operations.
- Exceptional items represent gain/(loss) on disposal/settlement of some of the remaining assets and liabilities of the discontinued operations.

New Delhi Date: 10.11.2020

financialexp.epap.in

0

COSMO FERRITES LIMITED

Regd. Office: Jabli, Distt Solan, Himachal Pradesh-173209

CIN: L27106HP1985PLC006378, Tel: 01792-277231-32/35/36, Fax: 01792-277234,

Website: www.cosmoferrites.com, E-mail: investorservices@cosmoferrites.com

| Ambrish Jaipuria |
|----------------------------|
| Executive Director & C.E.O |
| ITED |

Sd/

🎶 बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(Chandigarh Mr. Vikas Aggarwal.

Regional Office, SCO 62-63, First / Second Floor, Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh, Ph.: 0172-5007292

from 10:00 A.M.

04:00 P.M.

24.11.2020 &

25.11.2020

from 10:00 A.M.

to 04:00 P.M.

24.11.2020 &

25.11.2020

from 10:00 A.M.

to 04:00 P.M.

M.: 8288097561

M.: 8558846401

Mr. Vijay

Kumar, Chief

Manager

M.: 8558846401

Mr. Vijay Kumar, Chief

Manager

M.: 8558846401

ANNEXURE-E SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES "APPENDIX-IV-A" [SEE PROVISO TO RULE 6(2) & 8(6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6(2) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Mortgagor(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis for recovery of dues in below mentioned account/s. The details of Borrower(s) / Mortgagor(s) / Guarantor(s) / Secured Assets(s) / Dues / Reserve Price / E-Auction Date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below:

Hadbast No.:44, Tehsil & Distt. Rupnagar. Bounded:- On the North by: Other Owner; On the South by: Street; On the East by: Other Owner; On the West by: Mandir

to 03:00 P.M.

27.11.2020

to 03:00 P.M.

Rs. 1,11,384/-

Rs. 24,64,000/-

Rs. 2,46,400/-

| Branch | Name & Address of Borrower(s) / Guarantor(s) | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF | Total Dues | Date & Time of E-Auction | Reserve Price EMD | Status of Possession | Property Inspection Date | Ballion Control of the Control of th |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|
| | / Mortgagor(s) & Owner(s) | encumbrances, if any | | | Bid Increase Amount | (Constructive / Physical) | & Time | and contact number |
| Region) | W/o Sh. Rohit Dhar (2) Rohit Dhar S/o Durga | As per fard Jamabandi for the Year 2011- 2012, the property measuring 3 Marla 3 Sarsahi (100 Sq. Yds.) situated in Rupnagar, Hadbast No. 44, Tehsil & Distt. Rupnagar. | on 30.09.2020 + interest + legal and other | from 11:00 A.M. | Rs. 6,88,500/- Rs. 68,850/- Rs. 10,000/- | Physical Possession | 24.11.2020 & 25.11.2020 from 10:00 A.M. to 04:00 P.M. | Mr. Rakesh Pratap Chauhan, M.: 875832419 |
| Rohit Dhar (Own | er of the Property) Harmanjit | The property measuring being 2 Marla 7 Sars measuring 5 Sarsahi being 5/270 share out of | sahi being 1/54 share out of | | | | hasra No. 51//10(7- | 10) and p |

DATE AND TIME OF E AUCTION OF FOIL OWING PROPERTIES. 27 NOVEMBER 2020 FROM 11-00 A M TO 02-00 RM (WITH HIM IMPER EXTENSION OF 10 MINUTES BURNION FACUL

Borrower(s):- Mr. Manu Residential Property measuring 104.45 Sq. Rs. 46,60,000/- O/s as Physical 24.11.2020 & Ms. Bhoomika, 35,02,000/-25.11.2020 Baradari. Malhotra S/o Sh. Raman Yds. situated at H. No. 2536/1, Gurudwara on 30.09.2020 + interest from 11:00 A.M. Possession Mob.: Malhotra, Smt. Harleen Kaur Sahib, Ahluwalia Road, Near Ama Barna + legal and other to 03:00 P.M. from 10:00 A.M. Patiala Rs. 3,50,200/-9152940758 W/o Sh. Manu Malhotra and Smt. Parveen Chowk, Patiala, Punjab - 147001 in the name charges to 04:00 P.M. Rs. 10,000/-Malhotra W/o Sh. Raman Malhotra, Address-I:- of Sh. Manu Malhotra S/o Sh. Raman Malhotra. H. No. 2475/1, Ram Gali, Do Park Near Peer Baba, Patiala. Address-II:- House No. 2475/1, Ram Gali, Do Park Near Peer Baba, Patiala and Owner(s):- Mr. Manu Malhotra S/o Mr. Raman Malhotra SSI Mandi Borrower(s):- M/s VM Residential House bearing Khatouni No. 830, Rs. 19,24,999.78 O/s as Rs. Physical 24.11.2020 & Mr. Ashutosh 27.11.2020 Gobindgarh | Fuels, through its Proprietor | Khasra No. 1115/124 Min(1-6) measuring 1 on 30.09.2020 + interest | from 11:00 A.M. 11,13,840/-Possession 25.11.2020 Anand.

to 04:00 P.M. Region) Biswa vide Vasika No. 677 dated 27.06.2012, charges 9152941328 Rs. 10,000/-Khatouni No. 831, Khasra No. 126 min (1-8-10) measuring 1 Biswa 5 Biswa i i.e. 25/570 share of 1 Bigha 8 Biswa 10 Biswasi vide Vasika No. 1773 dt. 15.03.2016, total land measuring 2 Biswa 10 Biswai situated at

Village Nasrali, Tehsil Amloh, Distt. Fatehgarh Sahib in the name of Smt. Kusum Aggarwal. Borrower:- Pooja Dagar All the part and parcel fo the property Rs. 5,89,257 as on 27.11.2020 Rs. 4,21,000/ Physical 24.11.2020 & Mr. Vijay from 11:00 A.M. 25.11.2020 from Kumar, Chief Chandigarh | W/o Sh. Rupesh Dagar, R/o consisting of Flat No. S.F. 31, Type-A, 3rd 01.01.2019 + interest & Possession Rs. 42,100/-Manager Flat No. S.F. 31-A, 3rd Floor, Climb Paradise, Floor, Khewat No. 946, Khatauni No. 1179 other charges. to 03:00 P.M. 10:00 A.M. to Rs. 10,000/-

Naraingarh, District Ambala. Owner(s) / i.e. 00-00, 1/2 Marla situated at Village Dera, H. B. No. 190, Tehsil Naraingarh, District Ambala. Harvana. Guarantor(s):- Sh. Rupesh Dagar S/o Mr. Bidi Chand, R/o Flat No. S.F. 31-A, 3rd Floor, Climb Paradise, Opposite Saint Frands Academy, Tehsil Naraingarh, District Ambala

Biswa 5 Biswai i.e. 25/520 share of 1 Bigha 6 + legal and other

Borrower:- (1) M/s Sai All the part and parcel of Shop part of Rs. 15,08,778.25 + Physical Chandigarh Kirpa Enterprises, Shop property no. B-4/731-E/1, measuring North: unapplied intt. as on from 11:00 A.M. 11,90,000/-Possession No. B-4/731-E/1, Model Colony, Yamuna 10'-0", South: 10'-00"; East: 14'-0" & West: 01.01.2019, plus further to 03:00 P.M. Rs. 1,19,000/-Nagar (2) Mrs. Sunita W/o Mr. Rajesh 14'-00", total area 15.55 sq. yard interest and cost. Rs. 10,000/-

Khanna, House No. 2311, Vishwkarma approximately and situated at Mauja Model Colony, Jagadhari, Tehsil Jagadhari, Distt. Yamuna Nagar with in Municipal Corporation Yamuna Nagar - Jagadhari vide Colony, Jagadhri, Yamuna Nagar. [property ID No. 382C984U261 in name of Smt. Sunita Rani W/o Sh. Rajesh Khanna and bounded as under:- North: Road / Munda Majra Road; South: Vacant Plot of Guarantor:- Mr. Sunil Kumar S/o Sh. Kalu others; East: Shop of M/s Smyle General Store; West: Shop of Smt. Uma Khanna. Ram, House No. 1294, Vishwwkarma Colony, Jagadhari, Yamuna Nagar, Haryana - 135003. Owner(s):- Mrs. Sunita

Borrower(s):- Mrs. Monika All the part and parcel of Residential Property Rs. 33,09,907/- O/s as on

Chandigarh | Sharma W/o Mr. Gagandeep at House No. 34-A, measuring 110 Sq. Yards, 30,09,2020 + interest + from 11:00 A.M.

Opposite Saint Frands Academy, Tehsil min, Khasra No. 75//5(8-00) of 1/320 share

Sharma, H. No. 81, Near Tubewell Park, Ward i.e. 4 Marla, comprised in Khewat / Khatoni No. legal and other charges Rs. 10,000/-No. 12, Block No. 1, Ajit Nagar, Ambala Cantt. - 2330/3126, Khasra No. 53//25/3/2(0-2) 25/4(0-133001 Co-Borrower(s):- Mr. Gagandeep 8), H.B. No. 63, vide Sale Deed No. 5188 dated 26.03.2015 situated at Babyal, Ajit Nagar, Ambala Cantt. Distt. Ambala stand in the name of Mrs. Monika Sharma. Sharma S/o Mr. Vijay Sharma, H. No. 81, Near Tubewell Park, Ward No. 12, Block No. 1, Ajit Nagar, Ambala Cantt., Ambala - 133001

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm; and https://ibapi.in. IT MAY BE TREATED AS STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT 2002

Date: 10.11.2020 Place: Chandigarh

New Delhi

AUTHORISED OFFICER

Physical

Possession